

थाना खरेला पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.01.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 शिवकुमार यादव द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त क्रमशः 1.राममहेश पुत्र मुलायम उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा को सम्बन्धित केस न0 523/19 अ0सं0 74/18 धारा 336/342/323/504/506 भा0द0वि0 से गिरफ्तार किया गया, तत्पश्चात सम्बन्धित वाद सं0 22/20 धारा 128 सीआरपीसी मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोबा से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त हरगोविन्द पुत्र सीताराम नाई निवासी ग्राम ऐंचाना थाना खरेला जिला महोबा को ग्राम ऐंचाना से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवकुमार यादव
2. कां0 अनुराग सचान

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. हरगोविन्द पुत्र सीताराम नाई ग्राम ऐंचाना थाना खरेला जनपद महोबा
2. राममहेश पुत्र मुलायम उम्र 50 वर्ष ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा



पुलिस लाइन बाउण्ड्री में वॉल पेन्टिंग के माध्यम से पुलिस के कार्यों को प्रदर्शित करने वाले चित्रकार हुये सम्मानित-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित बाउण्ड्रीवाल में 30प्र0 पुलिस विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों व कार्यों का प्रदर्शित किये जाने का कार्य किया जा रहा था, यह कार्य स्थानीय चित्रकारों के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा था जो आज दिनांक 16.01.2023 को सम्पन्न हुआ।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्थानीय चित्रकारों क्रमशः 1.कुश कुमार 2.निदा खान 3.भारती वर्मा 4.फायजा खान 5.चंचल नंदनी 6.कनक नंदनी 7.निशा विश्वकर्मा 8.अल्लशा अंसारी को उनके द्वारा किये गये इस सराहनीय कार्य के लिये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह, जिला कोआर्डिनेटर अंकुर जायसवाल मौजूद रहे।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **16.01.2023** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **135** वाहनों के ई-चालान किये गये।



महोबा पुलिस